



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2019/चैत्र 4, 1941

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2019/CHAITRA 4, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

**सा.का.नि. 234(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा-निर्धारित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को संशोधन सहित अनुमोदित करती है।

2. यथा-अनुमोदित उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. (1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा;

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में, अनुसूची में, "सिविल इंजीनियरिंग विभाग के श्रेणी 1 पदों के लिए भर्ती नियम" शीर्षक के तहत, कार्यकारी अभियंता (सिविल) पद के संबंध में क्रम संख्या 2 के सामने :-

(i) कॉलम सं. 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः:-

“ (i) पदोन्नति : सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 20600-46500 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रु.) के वेतनमान में इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) अथवा सहायक एस्टेट प्रबंधक ग्रेड-1, ऐसा न होने पर 20600-46500 रु. (पूर्व संशोधित 9100-15100 रु.) के वेतनमान में इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले और 20600-46500 रु. (पूर्व संशोधित 9100-15100 रु.) तथा 16400-40500 रु. (पूर्व संशोधित 8600-14600 रु.) के वेतनमान में संयुक्त रूप से आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) अथवा सहायक एस्टेट प्रबंधक ग्रेड-1

**टिप्पणी :** सहायक एस्टेट प्रबंधक ग्रेड-1 को कार्यकारी अभियंता (सिविल) के फीडर ग्रेड में शामिल किये जाने पर अधिसूचना की तारीख पर फीडर ग्रेड में पहले से शामिल अधिकारियों के संदर्भ में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जायेगा।

(ii) विलयन/प्रतिनियुक्ति किसी महापत्तन न्यास के ऐसे अधिकारियों की की जाएगी जो उपशीर्ष “पदोन्नति” के तहत उल्लेखित अनुभव वाले समान पद धारित कर रहे हों अथवा फीडर पद के धारक हों।”

(ii) कॉलम 13 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः:-

“फीडर पद:

(i) रु. 20600-46500 (पूर्व संशोधित 9100-15100 रु.) के वेतनमान में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल),

(ii) रु. 20600-46500 (पूर्व संशोधित 9100-15100 रु.) के वेतनमान में सहायक एस्टेट प्रबंधक ग्रेड 1”

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियमों को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 77 (अ) दिनांक 06 फरवरी, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 393 (अ), दि. 16 मई 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 626 (अ), दि. 28 अगस्त 2014
- (iii) सा.का.नि. सं. 645 (अ), दि. 30 जून 2016
- (iv) सा.का.नि. सं. 213 (अ), दि. 09 मार्च 2017
- (v) सा.का.नि. सं. 777 (अ), दि. 14 अगस्त 2018

[मि.सं. पी.आर.-12012/17/2017- पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March , 2019

**G.S.R. 234(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment , Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. (1) These regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule, under the heading “RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT”, against serial number 2, relating to the post of Executive Engineer (Civil),-

(i) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“(i) Promotion: Assistant Executive Engineer (Civil) or Assistant Estate Manager Gr.I in the Civil Engineering Department in the pay scale of Rs.20600-46500 (Pre-revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade, failing which Assistant Executive Engineer (Civil) or Assistant Estate Manager Gr.I in the pay scale of Rs.20600-46500 (Pre-revised Rs.9100-15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the pay scale of Rs.20600-46500 (pre-revised Rs.9100-15100) and Rs.16400-40500 (Pre-revised Rs.8600-14600).

**Note:** The Assistant Estate Manager Gr- I, on his inclusion in the feeder grade of the Executive Engineer (Civil), shall be placed at the bottom of the seniority list with reference to officers already in the feeder grade on the date of notification.

(ii) Absorption/deputation shall be of Officers of a Major Port Trust holding analogous post or holding a feeder post with experience as mentioned under the sub-heading “Promotion”.

(ii) in column 13, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Feeder Post:

(i) Assistant Executive Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 20600-46500/- (Pre-revised Rs.9100-15100/-),

(ii) Assistant Estate Manager Gr.-I in the pay scale of Rs.20600-46500/- (Pre-revised Rs.9100-15100/-)”.

**Footnote :** The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. number 77 (E), dated the 6<sup>th</sup> February, 2009 and was subsequently amended *vide*-

- (i) G.S.R. No. 393 (E), dated the 16<sup>th</sup> May, 2014
- (ii) G.S.R. No. 626 (E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2014
- (iii) G.S.R. No. 645 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2016
- (iv) G.S.R. No. 213 (E), dated the 9<sup>th</sup> March, 2017
- (v) G.S.R. No. 777 (E), dated the 14<sup>th</sup> August, 2018

[F. No. PR-12012/17/2017-PE-I ]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.